भाड़ में जाओ!

केटी द बल्की एक बड़ी, बुरी, बदमाश लड़की है। और उसे इस पर गर्व है।

लेकिन जब केटी गलती से नरक जैसे जादुई स्कूल, हेल हाई में जाने का ऑफिशियल इनविटेशन मान लेती है, तो उसकी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप “गो टू हेल” जाते हैं, तो आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं।

यह किताब हेल हाई यूनिवर्स में सेट कहानियों का पहला कलेक्शन है, जिसमें केटी द बल्की की पहली पांच छोटी कहानियां एक साथ हैं। बोनस के तौर पर, इसमें केटी की क्लासमेट, बेकी द ब्रैट की दो नई स्टैंडअलोन छोटी कहानियां भी शामिल हैं।

“जो भी यहां आते हैं, सारी उम्मीदें छोड़ दो।”
—डांटे, "द डिवाइन कॉमेडी"

केटी द बल्की को स्पैंकिंग मिलती है

और नरक की अन्य कहानियाँ



यू मे और डॉक्टर क्रीज द्वारा